



Gulshan Polyols Limited
CIN : L24231UP2000PLC034918
Corporate Office: G-81, Preet Vihar,
Delhi-110092, India
Phone : +91 11 49999200
Fax : +91 11 49999202
E-mail : gscldelhi@gulshanindia.com
Website: www.gulshanindia.com

GPL\SEC\2020-21
October 27, 2020

BSE Limited
Corporate Service Department,
01st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai
Maharashtra- 400 001

The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
'G' block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai
Maharashtra-400 051

Scrip Code: 532457

Scrip Code: GULPOLY

Subject: Newspaper Publications - Intimation of Board Meeting

Dear Sir/Maám,


Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to Notice of Board Meeting of the Company to be held on Monday, November 2, 2020. The advertisements were published in Financial Express (English) All India Edition and Jansatta (Hindi), today on October 27, 2020.


This will also be hosted on Company's website at www.gulshanindia.com under Investors' Section.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully

For GULSHAN POLYOLS LIMITED


(Vijay Kumar Garg)
Company Secretary
M.No. ACS-37151



INDIAN OVERSEAS BANK

Risalu Branch (VPO-Risalu, Panipat, Haryana-132104, E-mail: iob3171@iob.in)

(APPENDIX IV) POSSESSION NOTICE (for immovable property) [(Rule 8(1))]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Indian Overseas Bank, under the Secularization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security and Enforcement (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand notice dated 30.07.2020 calling upon the borrowers/mortgagors/guarantors

Borrower: M/s. D M Industries Prop: Mr. Jai Parvesh Saini S/o Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat, Haryana - 132103

Guarantors: (1) Mr. Jai Parvesh Saini s/o Sh Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat, Haryana - 132103 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,92,288.60 (Rupees Twenty Lacs Ninety Two Thousand Two Hundred Eighty Eight and Sixty Paise only) as on 30.06.2020 plus further interest thereon at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of the said notice.

1) The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him, under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 23rd October 2020.

2) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount of Rs. 20,92,288.60 (Rupees Twenty Lacs Ninety Two Thousand Two Hundred Eighty Eight and Sixty Paise only) as on 30.06.2020 plus further interest thereon at contractual rates and rests, charges etc till date of realization with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession is Rs. 20,68,283.41 (Rupees Twenty Lacs Sixty Eight Thousand Two Hundred Eighty Three and Forty One Paise only) payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc, till date of payment.

3) The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Property is an existing industrial building measuring 237.42 sq yds at two locations (site A and site B-details below) situated on land which is part of killa no 24/2min, 24/28(07), 29(0-16) moja taraf afganan, abadi known as lumi nagar, near mahipal gas agency, inside MC limit, Panipat

Boundaries: As per site A (186.85 sq yds) as per site B (50.77 sq yds), North : Street, Plot of Sunder, South : Others property, Street, East : Property of Jagat Singh, Property of Jaganohan, West : Others plot, Property of Praveen Kumar

Place: Panipat, Date: 23.10.2020 Authorized Officer, Indian Overseas Bank

GULSHAN POLYOLS LIMITED

Regd. Off: 9/ K.M. Jansari Road, Muzaffarnagar - 251 001 (UP)
Corporate Off: G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092
Tel: 011-49999200, Fax: 011-49999202
CIN: L24231UP2000PLC034918
Website: www.gulshanindia.com, E-mail: cs@gulshanindia.com

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, November 2, 2020 at G - 81 Preet Vihar, Delhi - 110092**, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2020 including other matters of the Company. The information contained in this Notice is also available on Company's website www.gulshanindia.com and on the Stock Exchanges' website: www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Gulshan Polyols Limited
Sd/-
Delhi (Vijay Garg)
October 26, 2020 Company Secretary

GIC HOUSING FINANCE LTD.

YOUR ROAD TO A DREAM HOME

CIN No.: L65922MH1989PLC054583
Reg. Off: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Janshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020. | Tel No.: 022-43041900, Email: corporate@gichf.com, investors@gichf.com | Website: www.gichfindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of our Company will be held on **Wednesday, 11th November, 2020** to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (with Limited Review) for the Second Quarter/Half Year ended 30th September, 2020.

Board Meeting Notice is available on the website of the Company www.gichfindia.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For GIC Housing Finance Ltd.
Sd/-
Place : Mumbai Nutan Singh
Date : 27.10.2020 Group Executive & Company Secretary

PUBLIC NOTICE

We hereby inform that General Power of Attorney dated 20-09-1999 executed by Mr. Harjit Singh Bhatia in Favour of Mrs. Usha Nischal in respect of ADA MIG Flat No. 55C, Pocket A-14, Kalkaji Extn., New Delhi-110019 has been lost. If anyone gets the same, please contact Mrs. Birma Devi / Mr. Gautam Gupta (9999935471)

ANUH PHARMA LIMITED

CIN: L24230MH1960PLC011586
Regd. Office: 3-A Shivsagar Estate, North Wing, Dr. Amie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018
Phone: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600
Email: anuh@sk1902.com; Website: www.anuhpharma.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Regulation 29 read with the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on **Friday, November 06, 2020**, inter alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company at www.anuhpharma.com as well as on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Anuh Pharma Limited
Sd/-
Date : October 26, 2020 Bijn N. Shah
Place : Mumbai Managing Director (DIN: 00083244)

Motilal Oswal Asset Management Company Limited

Registered & Corporate Office : 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email : mfservice@motilaloswal.com
• CIN No.: U67120MH2008PLC188186
• Website: www.motilaloswalmf.com and www.mostshares.com

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Scheme(s) of Motilal Oswal Mutual Fund

Change in the address of Investors Service Center for the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF)

Investors are hereby requested to take note of the following change in the address of Investors Service Center for the Schemes of MOMF with effect from **October 24, 2020**.

Location	Existing Address	New Address
Kochi	41/418 E, 4 th Floor, Chicago Plaza, Rajaji Road, Kochi, Kerala - 682 035.	1 st Floor, Areekkal Mansion, Pannampilly Nagar, Main Road, Opposite to Malayala Manorama, Kochi, Kerala - 682 036.

This notice cum addendum forms an integral part of SID and KIM of the Scheme(s) of MOMF. All other contents remain unchanged.

For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)
Sd/-
Place : Mumbai Navin Agarwal
Date : October 26, 2020 Managing Director & Chief Executive Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ZIM LABORATORIES LIMITED

Registered Office: Sadoday Gyán (Ground Floor) Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur - 440 013
CIN : L99999MH1984PLC032172, Website : www.zimlab.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2020
(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	8,803.3	7,047.59	6,779.07	15,850.89	13,519.81	27,773.92
Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax	637.77	439.05	(161.62)	1,076.82	(405.39)	6.86
Net Profit/(Loss) for the period after exceptional item and tax	119.69	439.05	(161.62)	558.74	(405.39)	6.86
Net Profit / (Loss) for the period after tax	119.48	328.08	(60.88)	447.56	(52.23)	329.66
Total Comprehensive Income for the period	82.49	318.29	(59.55)	400.78	(67.73)	363.78
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per share)	1,624.19	1,624.19	1,618.07	1,624.19	1,618.07	1,618.07
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	13,764.03
Earnings per share (not annualised)	-	-	-	-	-	-
a) Basic	0.73	2.02	(0.37)	2.75	(0.32)	2.03
b) Diluted	0.73	2.02	(0.37)	2.75	(0.32)	2.03

Note : 1. Key Standalone financial information of the company is given below :

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Income from Operations	8,644.90	6,977.20	6,733.69	15,622.10	13,419.28	27,431.97
Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax	512.55	387.60	(149.35)	900.15	(399.10)	(148.74)
Net Profit / (Loss) for the period after tax	(5.74)	276.63	(148.61)	270.89	(45.95)	17.06
Total Comprehensive Income	(12.48)	269.89	(60.06)	257.41	(68.85)	14.10

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.zimlab.in).

3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 26th October 2020. There are no qualifications in the limited review report issued for the quarter and half year ended 30th September 2020.

Place : Nagpur, (Anwar S. Daud) Managing Director
Date : 26 October, 2020

FORM No. CAA 2

(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HR/ OF 2020 IN THE MATTER OF

THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:

GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1

AND

SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2

AND

SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U70109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/APPLICANT COMPANY NO. 3

AND

RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4

AND

FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5

AND

CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6

WITH

GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7

NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF VALUE OF RS. 50,000/- AND ABOVE OF THE CENTURY METAL RECYCLING LIMITED, TRANSFEROR COMPANY NO. 6

Notice is hereby given that by an order dated 9th October 2020 ("Order"), the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT") has directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of value of Rs. 50,000/- and above of the Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor Company No. 1") and Suvidhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") & their respective Shareholders ("Scheme").

In pursuance of the said order notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 6 will be held through Video Conferencing ("VC"), as under:

S.N.	Meetings of	WebLink - CISCO WEBEX System	Time	Day and Date
1.	Secured Creditors of Transferor Company No. 6	https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=m337084aada967cf7999527b34c8c8c	01:00 P.M [IST]	Saturday, 28th November 2020
2.	Unsecured Creditors of value of Rs. 50,000/- and above of the Transferor Company No. 6	https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=mc950a7da613640f82237011a7f6fb0dd	02:00 P.M [IST]	Sunday, 29th November 2020

Copies of the Scheme, the Explanatory Statement under Section 230-232 of the Companies Act, 2013 and Forms of Proxy can be obtained free of charge between 10:00 AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 6 at Unit No 802-803, 8th Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana-121003. Pursuant to said Order, **creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy**, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting.

The Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr. Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.

For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 6 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretariat@century.in, for receiving the above/said link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail.

Date: 26 October 2020 Justice V.K. Jhanji (Retd.)
Place: Chandigarh Chairperson appointed for the aforesaid Meetings

FORM No. CAA 2

(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HR/ OF 2020 IN THE MATTER OF

THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:

GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1

AND

SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2

AND

SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U70109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/APPLICANT COMPANY NO. 3

AND

RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4

AND

FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5

AND

CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6

WITH

GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7

NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF SANJIVANI NON FERROUS TRADING PRIVATE LIMITED, TRANSFEROR COMPANY NO. 3

Notice is hereby given that by an order dated 9th October 2020 ("Order"), the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT") has directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company 3"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor Company No. 1") and Suvidhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") and their respective Shareholders ("Scheme").

In pursuance of the said order, notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 3 will be held through Video Conferencing ("VC") as under:

S.N.	Meetings of	WebLink - CISCO WEBEX System	Time	Day and Date
1.	Secured Creditors of Transferor Company No. 3	https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=ms3a0f0e43af376796958a8e43c974a7e	10:00 A.M. [IST]	Saturday, 28th November 2020
2.	Unsecured Creditors of Transferor Company No. 3	https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=mc76ea4ba8c6319e33e7a66b2ce4c962	11:00 A.M. [IST]	Sunday, 29th November 2020

Copies of the Scheme, the Explanatory Statement under Section 230-232 of the Companies Act, 2013 and Forms of Proxy can be obtained free of charge between 10:00 AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 3 at Unit No 802-803, 8th Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana-121003. Pursuant to said Order, **creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy**, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting.

The Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr. Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.

For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 3 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretariat@century.in, for receiving the above/said link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail.

Date: 26 October 2020 Justice V.K. Jhanji (Retd.)
Place: Chandigarh Chairperson appointed for the aforesaid Meetings

Genus energizing lives

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

CIN: L21098UP2012PLC048300
Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh
Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
Ph.: 0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 | E-mail: cs@genuspaper.com | Website: www.genuspaper.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020
(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

S. NO.	PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED		
		Quarter ended September 30, 2020	Quarter ended September 30, 2019	Half year ended September 30, 2020	Quarter ended September 30, 2020	Half year ended September 30, 2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations	8011.14	7669.19	11146.44	8011.14	11146.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	377.66	354.49	-183.62	377.66	-183.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	377.66	354.49	-183.62	377.66	-183.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	386.28	567.88	-162.35	386.28	-162.35
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	386.28	567.88	-162.35	386.28	-162.35
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)	-	-	-	-	-
	Basic :	0.15	0.22	-0.06	0.15	-0.06
	Diluted:	0.15	0.22	-0.06	0.15	-0.06

Notes:

- The above unaudited standalone & consolidated financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on October 26th, 2020. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.
- The Above unaudited standalone & consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- The Company has invested in wholly Owned Subsidiary company in the name of "Kaishash Paper and Coke Limited" incorporated in India on July 23rd, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors
(Kaishash Chandra Agarwal)
Managing Director & CEO
DIN: 00895365

Place: Moradabad
Date : October 26, 2020

FORM No. CAA 2

(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HR/ OF 2020 IN THE MATTER OF

THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:

GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1

AND

SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2

AND

SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U70109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/APPLICANT COMPANY NO. 3

AND

RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4

AND

FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5

AND

CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6

WITH

GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PL

फ्लिपकार्ट व अमेजन के खिलाफ सीसीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

ई-कारोबार करने वाली कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की आयोग की फरियाद पर गौर करने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को वापस कर्नाटक हाई कोर्ट भेज दिया और निर्देश दिया कि वह इसका निपटारा छह हफ्ते के भीतर करे।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आयोग की जांच पर रोक इस साल चौदह फरवरी को लगाई थी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर प्रतिस्पर्धा निरोधक व्यवहार करने का आरोप था। आयोग ने 21 सितंबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। आयोग का काम इस बात की निगरानी करना है कि कंपनियां प्रतिस्पर्धा के नियमों की अन्देखी तो नहीं कर रही। दोनों कंपनियों के खिलाफ आयोग ने जांच इस साल 13 जनवरी को शुरू की थी।

दिल्ली व्यापार महासंघ की तरफ से प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3 के तहत की गई शिकायत को आयोग ने पहली नजर में सही पाया था। दिल्ली व्यापार महासंघ ने आरोप लगाया था कि ई-कामर्स से जुड़ी दोनों कंपनियां स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के साथ अनूठे और अपवाद स्वरूप अनुबंधित कारोबार में लिप्त थीं। कुछ विक्रेताओं को भारी छूट देकर कारोबार में भेदभाव कर रही थी। इसी बीच फ्लिपकार्ट ने भी अन्य शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। ऑल इंडिया आनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने मार्च में इस कंपनी के खिलाफ एनसीएलएटी में शिकायत की थी। जिसने प्रतिस्पर्धा आयोग को शिकायत की जांच का जिम्मा सौंप दिया था। इस जांच को भी फ्लिपकार्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सूचकांक 540 अंक लुढ़का

मुंबई, 26 अक्टूबर (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच बीएसई सूचकांक सोमवार को 540 अंक लुढ़क गया। सूचकांक में मजबूत स्थिति रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में नुकसान के साथ बाजार में गिरावट आई। मुकेश अंबानी के एगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्युचर ग्रुप के खुदरा कारोबार के अधिग्रहण को लेकर अमेजन के पक्ष में अंतरिम मध्यस्थता आदेश आने के बाद कंपनी का शेयर नीचे आया।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपए में तीव्र गिरावट का भी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक एक समय 737 अंक नीचे चला गया था। बाद में इसमें कुछ सुधार आया और अंत में 540 अंक यानी 1.33 फीसद की गिरावट के साथ 40,145.50 अंक पर बंद हुआ था।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में बजाज ऑटो रही। इसमें 6.10 फीसद की गिरावट आई। जिन अन्य प्रमुख शेयरों में गिरावट रही, उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। आरआईएल का शेयर 3.97 फीसद नीचे आ गया। इसका कारण प्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा कारोबार 24,713 करोड़ रूपए में बेचने के मामले में अमेजन डॉट कॉम के पक्ष में अंतरिम मध्यस्थता आदेश का आना है।

अमेजन पिछले साल खुदरा और फैशन समूह में अल्ट्रास हिस्सेदारी हासिल की थी। उसका कहना है कि प्यूचर का अपना खुदरा, थोक, लॉजिस्टिक्स और गोदाम कारोबार रिलायंस को बेचना उसके साथ किए गए अनुबंध का उल्लंघन है। अनुबंध में यह प्रावधान शामिल था कि इस प्रकार की पेशकश सबसे पहले उसे की जानी थी। सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ने रिविवा को प्यूचर रिटेल और उसके संस्थापकों पर अंतिम आदेश आने तक बिक्री के लिए आगे कदम बढ़ाये जाने पर रोक लगा दी।

लाभ में रहने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड और एचयूएल शामिल हैं। इसमें 2.48 फीसद तक की तेजी आयी। उधर, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ताजा प्रोत्साहन उपयों का लेकर अनिश्चितता की वजह से रुख कमजोर रहा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदा स्थगित रखने के मध्यस्थता फोरम के आदेश को चुनौती दे सकता है प्यूचर

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा)।

किशोर बिजाने की नेतृत्व वाले प्यूचर समूह ने सोमवार को संकेत दिया कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज को कारोबार बेचने के सौदे पर अंतरिम रोक लगाने की सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के निर्णय को

भारत के न्यायिक मंच पर चुनौती दे सकता है।

मध्यस्थता अदालत ने वैश्विक स्तर पर खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी अमेजन की याचिका पर 24,713 करोड़ रूपए के इस सौदे के खिलाफ अंतरिम रोक लगाई है।

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.
पब्लिक कॉर्पोरेशन, इंडिया
जिम्मा - विचारण, चण्डीगढ़ पीठ
सीएसएन: LQ2710CT1989PLC010052
ई-मेल: nra_nia2007@yahoo.com
www.novairon.com
फोन: 077-5285217, फैक्स: 077-5285215

सूचना
दिनांक 30.09.2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अखिरकाय रिपोर्ट वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार के लिए निर्देशकों के बीच की बैठक 11.11.2020 को होगी। सूचना कम्पनी की वेबसाइट तथा शेयर बाजार वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
कृते नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.
स्थान: नई दिल्ली ए.ए. (बीरब कुम्हार)
दिनांक: 26.10.2020 कम्पनी सचिव

Genus
Engineering
GENUS ENGINEERING LIMITED
(Formerly GULSHAN CHEMICALS LIMITED)
(CIN: L24117UP2000PLC032018)
Regd. Office: Near Moradabad Dhamam Kanta, Kanth Road, Harbaha, Moradabad-244001, U.P.
Phone: 051-2511711 | Fax: 051-2511242
Web: www.genusprime.com
Email: cs.genusprime@gmail.com

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on November 05, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.
By order of the Board
Date: 26-October-2020 Sd/-
Place: Moradabad Amit Agarwal
Whole Time Director & CEO

गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 04/11, मी. अन्वयण रोड, गुलशनकनगर-251001 (द.प्र.)
कोर्पोरेट कार्यालय: जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
दूरभाष: 011-49999200, फैक्स: 011-49999202
ईमेल: cs@gulshanindia.com
वेबसाइट: www.gulshanindia.com

गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड
एलए द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 2 नवंबर 2020 को जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 में, अन्य बातों के अतिरिक्त, कम्पनी के अन्य विषयों सहित, 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं बंद हो चुके अर्ध-अंशिक वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन हेतु आयोजित होना निर्धारित है। इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.gulshanindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
कृते गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर / -
(प्रियय नर्ग)
कम्पनी सचिव

प्रपत्र सं. सीएए 2
(कम्पनी (समझौता, ठहराव एवं समामोदन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 232 के अनुसार)
माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए(सीए) सं. 2020 का 20 / सीएचडी / एकआरवाई
निम्नलिखित के मामले में

ग्रांड मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U00331HR2005PTC086017) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 1 / आवेदक कम्पनी सं. 1
तथा
सुबुद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U67120HR1992PLC087012) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 2 / आवेदक कम्पनी सं. 2
तथा
संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U70109HR2006PTC086175) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 3 / आवेदक कम्पनी सं. 3
तथा
रामायण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U25517HR2006PTC085676) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 4 / आवेदक कम्पनी सं. 4
तथा
फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U22229HR2006PTC085674) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 5 / आवेदक कम्पनी सं. 5
तथा
संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड (सीआईएन: U74899HR1994PLC086105) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 6 / आवेदक कम्पनी सं. 6
के साथ

ग्रांड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन: U00337HR2005PLC085675) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरिकी कम्पनी / आवेदक कम्पनी सं. 1
संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड, अन्तरक कम्पनी सं. 6 के रु: 50,000/- एवं इससे अधिक मूल्य के प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ ("अधिकरण" या "पीठ") ने आदेश दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 ("आदेश") द्वारा ग्रांड मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 1") तथा सुबुद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 2") तथा संजीवनी नॉन फेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 3") तथा रामायण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 4") तथा फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 5") तथा संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 6") तथा ग्रांड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("अन्तरिकी कम्पनी") एवं उनके सम्बंध श्रेयधारकों के बीच ठहराव की योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा गया तो संशोधन(न) के बिना अनुमोदन करने के उद्देश्य से **संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 6")** के रु. 50,000/- एवं इससे अधिक मूल्य के प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त आदेश सूचना के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्तरक कम्पनी सं. 6 के प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से निम्नवत आयोजित की जायेगी:

प्रपत्र सं. सीएए 2
(कम्पनी (समझौता, ठहराव एवं समामोदन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 232 के अनुसार)
माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए(सीए) सं. 2020 का 20 / सीएचडी / एकआरवाई
निम्नलिखित के मामले में

ग्रांड मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U00331HR2005PTC086017) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 1 / आवेदक कम्पनी सं. 1
तथा
सुबुद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U67120HR1992PLC087012) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 2 / आवेदक कम्पनी सं. 2
तथा
संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U70109HR2006PTC086175) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 3 / आवेदक कम्पनी सं. 3
तथा
रामायण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U25517HR2006PTC085676) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 4 / आवेदक कम्पनी सं. 4
तथा
फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U22229HR2006PTC085674) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 5 / आवेदक कम्पनी सं. 5
तथा
संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड (सीआईएन: U74899HR1994PLC086105) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरक कम्पनी सं. 6 / आवेदक कम्पनी सं. 6
के साथ

ग्रांड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन: U00337HR2005PLC085675) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 803 एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 पर है।
...अन्तरिकी कम्पनी / आवेदक कम्पनी सं. 1
संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरक कम्पनी सं. 3 के प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ ("अधिकरण" या "पीठ") ने आदेश दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 ("आदेश") द्वारा ग्रांड मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 1") तथा सुबुद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 2") तथा संजीवनी नॉन फेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 3") तथा रामायण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 4") तथा फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 5") तथा संघुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 6") तथा ग्रांड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("अन्तरिकी कम्पनी") एवं उनके सम्बंध श्रेयधारकों के बीच ठहराव की योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा गया तो संशोधन(न) के बिना अनुमोदन करने के उद्देश्य से **संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनी सं. 3")** के प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त आदेश सूचना के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्तरक कम्पनी सं. 3 के प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से निम्नवत आयोजित की जायेगी:

क्र.सं.	बैठक	वेबसिंक-सिस्को वेबेक्स सिस्टम	समय	दिन एवं तिथि
1.	अन्तरक कम्पनी सं.6 के प्रतिभूत लेनदारों की	https://sunresolution.webex.com/sunresolution.php?MTID=m337084aadaa967cfd7999527fb3a0c8c	01:00 बजे अप. [भा.मा.स.]	शनिवार, 28 नवंबर 2020
2.	अन्तरक कम्पनी सं. 6 के रु. 50,000/- एवं इससे अधिक की अप्रतिभूत लेनदारों की	https://sunresolution.webex.com/sunresolution.php?MTID=md960a7da613640f82237011a7f6fb8dd	02:00 बजे अप. [भा.मा.स.]	शनिवार, 28 नवंबर 2020

योजना की प्रतियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रारंभिक प्रपत्र सभी दिवसों (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर 10.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर के बीच अन्तरक कम्पनी सं. 6 के पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802-803, 8वीं मंजिल, एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है। कथित आदेश के अनुसार लेनदार व्यक्तिगत रूप से या प्रारंभिक के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे बशर्त कि उन्हें बैठक से अधिकतम 48 घण्टों से पूर्व उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर सभी प्रारंभिक निर्धारित प्रारूप में जमा कर दी जायें।

माननीय अधिकरण ने कथित बैठक तथा उसके किसी स्थगन के लिए चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस वी. के. झाड़ी (सेवानिवृत्त), वैकल्पिक चेयरपर्सन के रूप में श्री वीरेन सिब्बल, एडवोकेट तथा सर्वोपायक के रूप में श्री रोहित गर्ग, चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया है।

यदि उपर्युक्त बैठकों में योजना अनुमोदित हो जाती है तो यह बाद में माननीय अधिकरण के अनुमोदन का विषय होगी।

वेबसिंक लॉगिन विवरणों सहित उपर्युक्त बैठकों का एक लिंक प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की व्यक्तिगत सूचना में भेजा जा चुका है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा या बैठक के दौरान मतदान सम्बन्धी समस्त पृष्ठताछ के लिए मोबाइल / ई-मेल पर उपर्युक्त लिंक / बैठक के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया मोबाइल नं. 9871006839 या ई-मेल secretarial@century.in के माध्यम से अन्तरक कम्पनी सं. 6 के अधिकृत प्राधिकारी श्री प्रदीप सिंह से सम्पर्क करें।

ह. / -
जस्टिस वी. के. झाड़ी (सेवानिवृत्त)
उपर्युक्त बैठकों के लिए नियुक्त चेयरपर्सन

क्र.सं.	बैठक	वेबसिंक-सिस्को वेबेक्स सिस्टम	समय	दिन एवं तिथि
1.	अन्तरक कम्पनी सं.3 के प्रतिभूत लेनदारों की	https://sunresolution.webex.com/sunresolution.php?MTID=9a60fae43af376796958a8e43c97f4e7	10:00 बजे सुबह [भा.मा.स.]	शनिवार, 28 नवंबर 2020
2.	अन्तरक कम्पनी सं. 3 के अप्रतिभूत लेनदारों की	https://sunresolution.webex.com/sunresolution.php?MTID=76ea4b4a8c6319e33e7ea6b20e44c962	11:00 बजे सुबह [भा.मा.स.]	शनिवार, 28 नवंबर 2020

योजना की प्रतियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रारंभिक प्रपत्र सभी दिवसों (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर 10.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर के बीच अन्तरक कम्पनी सं. 3 के पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802-803, 8वीं मंजिल, एएसएसआर कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 27बी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है। कथित आदेश के अनुसार लेनदार व्यक्तिगत रूप से या प्रारंभिक के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे बशर्त कि उन्हें बैठक से अधिकतम 48 घण्टों से पूर्व उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर सभी प्रारंभिक निर्धारित प्रारूप में जमा कर दी जायें।

माननीय अधिकरण ने कथित बैठक तथा उसके किसी स्थगन के लिए चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस वी. के. झाड़ी (सेवानिवृत्त), वैकल्पिक चेयरपर्सन के रूप में श्री वीरेन सिब्बल, एडवोकेट तथा सर्वोपायक के रूप में श्री रोहित गर्ग, चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया है।

यदि उपर्युक्त बैठकों में योजना अनुमोदित हो जाती है तो यह बाद में माननीय अधिकरण के अनुमोदन का विषय होगी।

वेबसिंक लॉगिन विवरणों सहित उपर्युक्त बैठकों का एक लिंक प्रतिभूत लेनदारों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की व्यक्तिगत सूचना में भेजा जा चुका है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा या बैठक के दौरान मतदान सम्बन्धी समस्त पृष्ठताछ के लिए मोबाइल / ई-मेल पर उपर्युक्त लिंक / बैठक के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया मोबाइल नं. 9871006839 या ई-मेल secretarial@century.in के माध्यम से अन्तरक कम्पनी सं. 3 के अधिकृत प्राधिकारी श्री प्रदीप सिंह से सम्पर्क करें।

ह. / -
जस्टिस वी. के. झाड़ी (सेवानिवृत्त)
उपर्युक्त बैठकों के लिए नियुक्त चेयरपर्सन

एनएचएआई के अक्षम अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय : गडकरी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में काम की सुस्त रफ्तार से काफी नाराज हैं।

गडकरी ने एनएचएआई में देरी की कार्य संस्कृति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब नै-रिष्पादित अस्तित्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग परियोजनाओं में देरी कर रहे हैं और अड़चन पैदा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि एनएचएआई अक्षम अधिकारियों का स्थल बना हुआ है, जो अड़चन पैदा कर रहे हैं। ये अधिकारी प्रत्येक मामले को समिति के पास भेज देते हैं। अब समय आ गया है जब ऐसे अधिकारियों को निलंबित और बर्खास्त किया जाना चाहिए और कामकाज में सुधार लाया जाना चाहिए।

विश्व की ऊर्जा मांग को गति देगा भारत : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऊर्जा क्षेत्र में हाल में किए गए सुधारों को जिक्र करते हुए कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा की मांग को गति देगा। सेरा वीक के भारत ऊर्जा मंच की संवोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक ऊर्जा मांग में एक-तिहाई की कमी आयी है। निवेश पर असर पड़ा है और अगले कुछ साल मांग में नरमी का अनुमान है। लेकिन भारत की ऊर्जा खपत दीर्घकाल में दोगुनी होगी।

मोदी ने कहा कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र वृद्धि केंद्रित, निवेशक अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सचेत है। भारत तेजी से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास कर रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धता (सीओपी21) की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने 2022 तक 1,75,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का

जो लक्ष्य रखा है, उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 4,50,000 मेगावॉट करने का लक्ष्य रखा है।'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन गिने-चुने देशों में है, जहां कार्बन उत्सर्जन कम है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में पिछले पांच साल में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए तेल व गैस खोज और उत्पादन क्षेत्र के साथ-साथ गैस विपणन क्षेत्र में बदलाव को रेखांकित किया। मोदी ने कहा, 'भारत का ऊर्जा क्षेत्र पिछले पांच साल में तेजी से बढ़ा है।' उन्होंने कहा कि हमारा जोर भारत को गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का है। हमने तेल रिफाइनिंग क्षमता मौजूदा 25 करोड़ टन से बढ़ाकर 2025 तक 45 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा भविष्य उज्वल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा तक पहुंच सस्ती और भरोसेमंद होनी चाहिए।

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly outside India.



INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

Our Company was incorporated as Indian Railway Finance Corporation Limited on December 12, 1986, as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana ("RoC"). Thereafter, our Company received a certificate of commencement of business from the RoC on December 23, 1986. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India, through its notification dated October 8, 1993, classified our Company as a Public Financial Institution under Section 4(A) of the Companies Act, 1956 (now defined in Section 2(72) of the Companies Act, 2013). Subsequently, our Company was registered with RBI under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 to carry on the business of a non-banking financial institution without accepting public deposits, pursuant to a certificate of registration bearing No. 14.00013 dated February 16, 1998. Subsequently, vide a fresh certificate of registration bearing No. 14.00013, dated March 17, 2008, Reserve Bank of India ("RBI") classified our Company as a non-deposit accepting asset finance non-banking financial company. Thereafter, our Company was re-classified as an NBFC-ND-IFCI by RBI, through a fresh certificate of registration bearing No. B-14.00013, dated November 22, 2010. For further details, including details of change in registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 124 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 16, 2020, filed by the Company.

Registered and Corporate Office: UG-Floor, East Tower, NBCC Place, Bisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi – 110 003; Tel: +91 (11) 2436 9766
Contact Person: Vijay Babul Shirode, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 (11) 2436 8068;
E-mail: cs@irfc.nic.in; **Website:** www.irfc.nic.in; **Corporate Identification Number:** U65910DL1986GOI026363

ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JANUARY 16, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

THIS IS IN RELATION TO THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,782,069,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [x] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [y] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICED") AGGREGATING TO ₹ [z] MILLION ("ISSUE") CONSISTING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 1,188,046,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [z] MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 594,023,000 EQUITY SHARES BY THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA ("SELLING SHAREHOLDER"), AGGREGATING TO ₹ [z] MILLION ("OFFER FOR SALE").

THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹5.00 MILLION FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS REFERRED TO AS THE NET ISSUE. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE UP TO 13.64% AND UP TO [x]%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID